



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934

No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2013

**का.आ. 14(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के बंगलौर ग्रामीण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 207 (नई संख्या 648) के 57.740 कि.मी. से 138.320 कि.मी. तक के भू-खण्ड (होसकोटे-सोमपुरा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका सक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त योजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, कुनिगल, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा उसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में पलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 207 (नई संख्या 648) के (डिजाइन चैनेज 57.740 कि.मी.) से (डिजाइन चैनेज 13 320 कि.मी तक) (होसकोटे-सोमपुरा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. बंगलौर ग्रामीण	1. होसकोटे	1. दोड्डहुल्लूर	97/1	निजी	शुष्क	153
			2. चिक्क हुल्लूर	27/2	निजी	शुष्क	43
				37/1B	निजी	शुष्क	657
				17/2	निजी	शुष्क	934
			3. कंबलिपुरा	80/1	निजी	शुष्क	202
				66/1A	निजी	शुष्क	114
				61/1	निजी	शुष्क	51
				59/3	निजी	शुष्क	5
				58/1	निजी	शुष्क	339
				102/11	निजी	खराब	480
			4. एम. सत्यवारा	66/2C	निजी	शुष्क	101
						बागीचा	505
				89/2	निजी	शुष्क	4167
				111/2	निजी	शुष्क	38
			5. येणगुन्टे	3	निजी	शुष्क	32
			6. येतिनवडेयरपुरा	11	निजी	शुष्क	166
			7. अतिबेले	133/3	निजी	नमी	1086
				133/1	निजी	बागीचा	1035
			8. सूनिबेले	224/5	निजी	बागीचा	173
				244/4	निजी	नमी	7
		2. देवनहल्लि	1. बलेपुरा	51/2	निजी	शुष्क	295
				50/1	निजी	शुष्क	316
			2. मल्लेपुरा	47/2	निजी	शुष्क	3270
				113/1	निजी	एनएके	23290
				113/2	निजी	शुष्क	2020
			3. नल्लूर	133	निजी	शुष्क	2020
				30	निजी	एनएके	2626
				26	निजी	एनएके	1515
				18/2	निजी	एनएके	606
			4. बूदिहाल	120	निजी	शुष्क	608
				123/1	निजी	नमी	81
				124/2	निजी	शुष्क	3950

1	2	3	4	5	6	7	8
				124/4	निजी	शुष्क	2323
				125	निजी	शुष्क	53
				168	निजी	शुष्क	317
			6. बिन्नमंगला	74	निजी	शुष्क	1515
				75	निजी	शुष्क	3030
				76	निजी	शुष्क	4040
			7. गुट्टहल्लि	60	निजी	शुष्क	1263
				61	निजी	शुष्क	16565
				62	निजी	शुष्क	1212
				27/5	निजी	शुष्क	252
				27/4	निजी	शुष्क	783
				27/9	निजी	शुष्क	884
			8. देवनहल्लि	112/8	निजी	शुष्क	1212
				112/7	निजी	शुष्क	1364
				112/10	निजी	एनएके	328
				113/3	निजी	एनएके	1432
			9. गुल्लोबनहल्लि	4/1	निजी	शुष्क	2121
					निजी	बागीचा	707
				4/2	निजी	शुष्क	859
			10. हिरे अम्मनकेरे	142	निजी	शुष्क	7827
			11. सवकनहल्लि	158	निजी	शुष्क	11211
				141/2	निजी	शुष्क	2234
				70/3	निजी	शुष्क	1111
				70/4	निजी	शुष्क	404
				70/5	निजी	शुष्क	505
				70/6	निजी	शुष्क	379
				152	निजी	शुष्क	3131
				151/1	निजी	शुष्क	808
				151/2	निजी	शुष्क	1515
				151/3	निजी	शुष्क	808
				150	निजी	शुष्क	3131
				156	निजी	शुष्क	5353
				164	निजी	शुष्क	1313
			12. सेटरहल्लि	सड़क	सरकारी	खराब	100
				14/2	निजी	शुष्क	62
				13	निजी	शुष्क	236
				12	निजी	शुष्क	117

1	2	3	4	5	6	7	8
			13. लक्ष्मीपुरा	28/1	निजी	शुष्क	1566
				28/2	निजी	शुष्क	884
			14. सोलूर	211	निजी	शुष्क	328
			15. ब्याडरहल्लि	58/1	निजी	शुष्क	455
				205/2A	निजी	शुष्क	75
				56	सरकारी	खराब	25
			16. विस्वनाथपुरा	83/2	निजी	शुष्क	101
				83/3	निजी	शुष्क	101
				सड़क	सरकारी	खराब	40
				58/1	निजी	शुष्क	94
				51	निजी	शुष्क	94
				83/4	निजी	शुष्क	505
				83/5	निजी	शुष्क	379
				110/4	निजी	शुष्क	51
				249	निजी	शुष्क	303
				208/6	निजी	शुष्क	50
				208/7	निजी	शुष्क	50
				208/8	निजी	शुष्क	50
				208/9	निजी	शुष्क	25
				208/12	निजी	शुष्क	101
			17. बीरसंद्रा	160/1	निजी	शुष्क	25
				160/2	निजी	शुष्क	505
				160/3	निजी	शुष्क	606
				180	निजी	शुष्क	1010
				162	निजी	शुष्क	1010
				49	निजी	शुष्क	278
				11	निजी	शुष्क	3030
				181	निजी	शुष्क	3030
		3. दोडबल्लापुर	1. अरेहल्लि गुड्डदहल्लि	88/1	निजी	शुष्क	73
				90/4	निजी	शुष्क	380
				90/5	निजी	शुष्क	400
				84/2	निजी	शुष्क	630
				84/4	निजी	शुष्क	702
				20	निजी	शुष्क	170
				89	निजी	शुष्क	25
			2. दुर्गापुरा	28/2B	निजी	शुष्क	90
				27/3	निजी	शुष्क	555

1	2	3	4	5	6	7	8
				28/1	निजी	शुष्क	1432
				32/3	निजी	शुष्क	25
			3. तिप्पापुरा	23/1	निजी	शुष्क	556
				56/2	निजी	शुष्क	5
				56/3	निजी	शुष्क	41
				56/1	निजी	शुष्क	215
				99/2	निजी	शुष्क	195
			4. कोडिगेहल्लि	71	निजी	शुष्क	75
			5. केस्तूर	61/2B	निजी	बागीचा	101
				146/3	निजी	शुष्क	278
				101/5	निजी	शुष्क	353
				131	निजी/ सरकारी	खराब	4293
			6. मंडिव्यादरहल्लि	52/2	निजी	शुष्क	253
			7. दोडडबेलवंगला	144/3A	निजी	शुष्क	227
				167/2A1	निजी	शुष्क	758
				155/1A2	निजी	शुष्क	278
				155/1B2	निजी	शुष्क	254
			8. चिक्कबेलवंगला	46/3A	निजी	नमी	40
				56/2	निजी	शुष्क	101
			9. कट्टि होसहल्लि	28/2	निजी	शुष्क	656
			10. हुलिकुन्टे	213/1	निजी	शुष्क	151
				213/2	निजी	शुष्क	75
				160/4	निजी	शुष्क	51
				160/1	निजी	शुष्क	25
		4. नेलमंगला	1. मुद्देनहल्लि	1/4	निजी	शुष्क	909
				7	निजी	शुष्क	51
			2. मन्ने	235/5	निजी	नमी	25
			3. मुदलिंगनहल्लि	5/1A2	निजी	शुष्क	1768
				52/1B3	निजी	शुष्क	1793
				52/1B1	निजी	शुष्क	101
				52/1B2	निजी	शुष्क	2677
				29	निजी	नमी	50
				30	निजी	नमी	101
			4. निडवंदा	163	निजी	नमी	430
				69	निजी	बागीचा	119
				3/1B	निजी	शुष्क	229
				83/1	निजी	शुष्क	25
कुल योग							167942

[फा. सं. भारासप्रा/26014/2011/पीआईयू-बीएनजी/एलए/सारा-207]

माया प्रकाश, सचिव

18/11/12-2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
			4.M.Sathyawara	89/2	Private	Dry	4167
				111/2	Private	Dry	38
			5.Yenagunte	3	Private	Dry	32
			6.Yethinavade-yarapura	11	Private	Dry	166
			7.Attibele	133/3	Private	Wet	1086
				133/1	Private	Garden	1035
			8.Sulibele	224/5	Private	Garden	173
				244/4	Private	Wet	7
		2.Devanahalli	1.Balepura	51/2	Private	Dry	295
				50/1	Private	Dry	316
			2.Mallepura	47/2	Private	Dry	3270
			3.Nallur	113/1	Private	NAK	23290
				113/2	Private	Dry	2020
				133	Private	Dry	2020
			4.Boodihal	30	Private	NAK	2626
				26	Private	NAK	1515
				18/2	Private	NAK	606
			5.Gokare	120	Private	Dry	608
				123/1	Private	Wet	81
				124/2	Private	Dry	3950
				124/4	Private	Dry	2323
				125	Private	Dry	53
				168	Private	Dry	317
			6.Binnamangala	74	Private	Dry	1515
				75	Private	Dry	3030
				76	Private	Dry	4040

1	2	3	4	5	6	7	8
			7.Guttahalli	60	Private	Dry	1263
				61	Private	Dry	16565
				62	Private	Dry	1212
				27/5	Private	Dry	252
				27/4	Private	Dry	783
				27/9	Private	Dry	884
			8.Devanahalli	112/8	Private	Dry	1212
				112/7	Private	Dry	1364
				112/10	Private	NAK	328
				113/3	Private	NAK	1432
			9.Gullobanahalli	4/1	Private	Dry	2121
						Gardan	707
				4/2	Private	Dry	859
			10.Hire Amanikere	142	Private	Dry	7827
			11.Savakanahalli	158	Private	Dry	11211
				141/2	Private	Dry	2234
				70/3	Private	Dry	1111
				70/4	Private	Dry	404
				70/5	Private	Dry	505
				70/6	Private	Dry	379
				152	Private	Dry	3131
				151/1	Private	Dry	808
				151/2	Private	Dry	1515
				151/3	Private	Dry	808
				150	Private	Dry	3131
				156	Private	Dry	5353
				164	Private	Dry	1313



1	2	3	4	5	6	7	8
			12.Setterahalli	Road	Govt	Kharab	100
				14/2	Private	Dry	62
				13	Private	Dry	236
				12	Private	Dry	117
			13.Lakshmipura	28/1	Private	Dry	1566
				28/2	Private	Dry	884
			14.Solur	211	Private	Dry	328
			15.Byadarahalli	58/1	Private	Dry	455
				205/2A	Private	Dry	75
				56	Govt	Kharab	25
			16.Vishwanathapura	83/2	Private	Dry	101
				83/3	Private	Dry	101
				Road	Govt	Kharab	40
				58/1	Private	Dry	94
				51	Private	Dry	94
				83/4	Private	Dry	505
				83/5	Private	Dry	379
				110/4	Private	Dry	51
				249	Private	Dry	303
				208/6	Private	Dry	50
				208/7	Private	Dry	50
				208/8	Private	Dry	50
				208/9	Private	Dry	25
				208/12	Private	Dry	101
			17.Beerasandra	160/1	Private	Dry	25
				160/2	Private	Dry	505
				160/3	Private	Dry	606
				180	Private	Dry	1010
				162	Private	Dry	1010

1	2	3	4	5	6	7	8
				49	Private	Dry	278
				11	Private	Dry	3030
				181	Private	Dry	3030
		3.Doddaballapur	1.Arehalli Guddadahalli	88/1	Private	Dry	73
				90/4	Private	Dry	380
				90/5	Private	Dry	400
				84/2	Private	Dry	630
				84/4	Private	Dry	702
				20	Private	Dry	170
				89	Private	Dry	25
			2.Durgapura	28/2B	Private	Dry	90
				27/3	Private	Dry	555
				28/1	Private	Dry	1432
				32/3	Private	Dry	25
			3.Thippapura	23/1	Private	Dry	556
				56/2	Private	Dry	5
				56/3	Private	Dry	41
				56/1	Private	Dry	215
				99/2	Private	Dry	195
			4.Kodigehalli	71	Private	Dry	75
			5.Kesthur	61/2B	Private	Garden	101
				146/3	Private	Dry	278
				101/5	Private	Dry	353
				131	Private/ Govt	Kharab	4293
			6.Mandibadarahalli	52/2	Private	Dry	253
			7.Doddabelavangala	144/3A	Private	Dry	227
				167/2A1	Private	Dry	758
				155/1A2	Private	Dry	278
				155/1B2	Private	Dry	254

1	2	3	4	5	6	7	8			
			8.Chikkabelvangala	46/3A	Private	Wet	40			
				56/2	Private	Dry	101			
			9.Kattihosahalli	28/2	Private	Dry	656			
			10.Hulikunte	213/1	Private	Dry	151			
				213/2	Private	Dry	75			
				160/4	Private	Dry	51			
				160/1	Private	Dry	25			
					4.Nelamangala	1.Maddenahalli	1/4	Private	Dry	909
							7	Private	Dry	51
					3.Muddalinganahalli	235/5	Private	Wet	25	
5/1A2	Private	Dry				1768				
52/1B3	Private	Dry				1793				
52/1B1	Private	Dry				101				
52/1B2	Private	Dry				2677				
29	Private	Wet				50				
30	Private	Wet				101				
4.Nidavanda	163	Private				Wet	430			
	69	Private			Garden	119				
	3/1B	Private			Dry	229				
	83/1	Private			Dry	25				
GRAND TOTAL							167942			

[F. No. NHAI/26014/2011/PIU-BNG/LA/NH-207]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.